FINANCIAL EXPRESS

SER INDUSTRIES LIMITED

EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

Corporate Identification Number: L60231KA1963PLC004604: Registered Office: Chikkakuntanahali Vilagebidadi Hobli Ramnagaram Taluk, Bangalore - 562109, Kamataka, India: Contact Number: +91-9343702920/ +91-80-27204463:

Email Address: Info@serindustries.co.in; Website: www.serindustries.co.in;

THIS PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT IS ISSUED BY SWARAJ SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED. THE MANAGER TO THE OFFER, ON BEHALF OF MR. SUNIL KUMAR SHAHI, THE ACQUIRER, FOR ACQUISITION OF UP TO 2.57,294 OFFER SHARES, REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF SER INDUSTRIES LIMITED, AT AN OFFER PRICE OF ₹35.00/- PER OFFER SHARE, PAYABLE IN CASH, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATION 18 (7) OF SEBI (SAST) REGULATIONS ("PRE-OFFER CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT ADVERTISEMENT").

This Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement is to be read in conjunction with the: a) Public Announcement dated Thursday, May 22, 2025 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Wednesday, May 28, 2025, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Thursday, May 29, 2025, in Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Prajavani (Kannada Daily) (Bangalore Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, June 05, 2025 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer' (d) Letter of Offer dated Friday, August 08, 2025, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("Letter of Offer"), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Thursday, August 14, 2025, and published in the Newspapers on Monday, August 18 2025 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, and this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer.

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

For capitalized terms used hereinafter, please refer to the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 9 of the Letter of Offer.

Offer Price

The Offer is being made at a price of ₹35.00/- per Offer, payable in cash.

There has been no revision in the Offer Price.

Recommendations of the Committee of Independent Directors (1DC) A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of Mr. Om Narayan Singh as the Chairperson of IDC, and Ms. Aarti Jeetendra Juneja, as a

Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision. Other details with respect to Offer This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.

member of IDC approved their recommendation on the Offer on Thursday, August 14, 2025, and published in the Newspapers on Monday, August 18, 2025. The IDC

- The Letter of Offer has been dispatched on Tuesday, August 12, 2025, to the Public Shareholders of the Target Company whose names appeared on the register of members as on the Identified Date, i.e., Tuesday, August 05, 2025. The dispatch has been carried out through post to those Public Shareholders who had not registered their e-mail addresses with the Depositories and/or the Target Company, and through electronic mode (e-mail) to those Public Shareholders whose e-mail addresses were registered with the Depositories and/or the Target Company.
- The Draft Letter of Offer dated Thursday, June 95, 2025, was filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number SEBI Observation letter bearing reference number 'SEBUHO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2025/20691/1' dated Friday, August 01, 2025, incorporated in the Letter of Offer.
- There have been no material changes in relation to the Offer, other than those already disclosed in the Letter of Offer.
- Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in; the Target Company at www.serindustries.co.in the Registrar to the Offer at info@regnumrta.co.in, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com, from which the Public Shareholders can download/print the same.

Instructions for Public Shareholders

- In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form: The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/dematerialized form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. For further information, kindly refer to Paragraph 8.8, titled as 'The procedure for tendering to be followed by Public Shareholders holding Equity Shares in the dematerialized form is as follows: on page 50 of the Letter of Offer.
- In case of Equity Shares are held in Physical Form: As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from 1 April 2019, However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as pe the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iii) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by soleljoint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.7, titled as 'The procedure for tendering to be followed by Public Strareholders holding Equity Shares in the physical form is as follows: on page 49 of the Letter of Offer.
- Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the records of Depositories on the identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number. DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.24, titled as Procedure for tendering the Equity Shares in case of non-receipt of Letter of Offer: on page 52 of the Letter of Offer.

Status of Statutory and Other Approvals

As on the date of this Letter of Offer, there are no statutory or other approvals required for implementing the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 7.3, titled as 'Statutory Approvals and conditions of the Offer' at page 46 of Letter of Offer.

Procedure for Acceptance and Settlement of Offer

The Open Offer will be implemented by the Acquirer through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13 April 2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien market against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as 'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer

Revised Schedule of Activities

Activity	Tentative Schedule as specified under the Draft Letter of Offer (Day and Date)	REVISED SCHEDULE (DAY AND DATE) (UPON RECEIPT OF SEBI OBSERVATION LETTER)
Date of issue of the Public Announcement	Thursday, May 22, 2025	THURSDAY, MAY 22, 2025
Date for publication of Detailed Public Statement in the Newspapers	Thursday, May 29, 2025	THURSDAY, MAY 29, 2025
Date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Thursday, June 05, 2025	THURSDAY, JUNE 05, 2025
Last date for public announcement for a Competing Offer®	Thursday, June 19, 2025	THURSDAY, JUNE 19, 2025
Date for receipt of SEBI observations on the Draft Letter of Offer	Thursday, June 26, 2025	FRIDAY, AUGUST 01, 2025
Identified Date ⁽³⁾	Monday, June 30, 2025	TUESDAY, AUGUST 05, 2025
Last date by which the Letter of Offer after duly incorporating SEBI's comments to the Draft Letter of Offer, is required to be dispatched to the Public Shareholders whose names appear on the register of members on the Identified Date	Monday, July 07, 2025	TUESDAY, AUGUST 12, 2025
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation on the Offer to the Public Shareholders	Thursday, July 10, 2025	MONDAY, AUGUST 18, 2025
Last date for upward revision of the Offer price/ Offer size	Friday, July 11, 2025	TUESDAY, AUGUST 19, 2025
Last date of publication of the Offer opening public announcement, announcing the schedule of activities of this Offer, status of statutory and other approvals, if any, and procedure for tendering acceptances in the Newspapers in which this Detailed Public Statement has been published	Friday, July 11, 2025	TUESDAY, AUGUST 19, 2025
Date of commencement of Tendering Period ('Offer Opening Date')	Monday, July 14, 2025	WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025
Date of expiry of Tendering Period ('Offer Closing Date')	Friday, July 25, 2025	WEDNESDAY, SEPTEMBER 03, 2025
Date by which all requirements including payment of consideration, rejection/acceptance and return of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company whose Equity Shares have been rejected in this Office	Friday, August 08, 2025	THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025
Last date for publication of the post-Open Offer public announcement in the Newspapers ⁽³⁾	Monday, August 18, 2025	THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025
Last date for filing the post-Offer report with SEBI ³	Monday, August 18, 2025	THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025

(1) There has been no competing offer for this Offer. (2) Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent in accordance with the

SEBI (SAST) Regulations. It is clarified that all the Public Shareholders (even if they acquire Equity Shares and become shareholders of the Target Company after the identified Date) are eligible to participate in this Offer any time during the Tendering Period. (3) These actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

Documents for Inspection

The copies of the documents listed under Paragraph 10 titled as 'Documents for Inspection' on page 72 of the Letter of Offer will be available for inspection at the principal place of business of the Manager to the Offer, Swarai Shares and Securities Private Limited, located at Unit No 402, Antariksh, Thakoor House, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059; Maharashtra, India on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Wednesday, August 20, 2025, to Wednesday, September 03, 2025. Further, in light of SEBI Circular SEBI/HO/CFD DCR2/CIR/P/2020/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email addresses (including shareholding details and authority letter in the event the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line ["Documents for Inspection - SER Open Offer"], to the Manager to the Open Offer at takeover@swarajshares.com; and upon receipt and processing of the received request, access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents.

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Pre-Offer cum Corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company) and undertake that he is aware of and will comply with his obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer. The Acquirer will be responsible for ensuring compliance with the

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at info@serindustries.co.in, the Registrar to the Offer at info@regnumrta.co.in, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at

ssued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

SHARES & SECURITIES FVT LTD

Swaraj Shares and Securities Private Limited

Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India

Telephone Number: +91-22-69649999 Email Address: takeover@swarajshares.com

Investors Grievance Email Address: investor relations@swarajshares.com Website: www.swaraishares.com

Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/Ms. Pankita Patel SEBI Registration Number: INM00012980

Date: Monday, August 18, 2025

Place: Mumbai

Validity: Permanent

For and on behalf of the Acquirer

Mr. Sunil Kumar Shahi

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF ADDI INDUSTRIES LIMITED Registered Office: - A-104, Third floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi-110020.

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer(s) Mr. Rajat Goyal, Mrs. Neha Agarwal, M/s Rajat Goyal HUF, Mr. Sandeep Mittal, Mrs. Ruchi Mittal and M/s Sandeep Mittal & Sons HUF pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Detailed Public Statement ("DPS"), unless otherwise specified. Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the DPS, unless otherwise

The shareholders of Addi Industries Limited are requested to note that the developments/amendments with respect to and in connection with DPS are as under: The revised schedule of activity pertaining to the Open Offer has been changed and shall be read as under.

Sr. No	Activity	Original Schedule (Days & Dates)	Revised Schedule (Days & Dates)
1.	Date of Public Announcement	Tuesday, May 20, 2025	Tuesday, May 20, 2025
2.	Date of Publication of Detailed Public Statement	Tuesday, May 27, 2025	Tuesday, May 27, 2025
3.	Filing of the Draft Letter of Offer to SEBI	Tuesday, June 03, 2025	Tuesday, June 03, 2025
4.	Last Date for a Competitive Offer(s)	Tuesday, June 17, 2025	Tuesday, June 17, 2025
5.	Identified Date*	Thursday, June 26, 2025	Monday, August 11, 2025
6.	Date by which Final Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Thursday, July 03, 2025	Wednesday, August 20, 2025
7.	Last Date for revising the Offer Price/ number of shares.	Monday, July 07, 2025	Friday, August 22, 2025
8.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations.	Tuesday, July 08, 2025	Monday, August 25, 2025
9.	Date of Publication of Offer Opening Public Announcement	Wednesday, July 09, 2025	Tuesday, August 26, 2025
10.	Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening date)	Thursday, July 10, 2025	Thursday, August 28, 2025
11.	Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing date)	Wednesday, July 23, 2025	Thursday, September 11, 2025
12.	Last Date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for applications accepted/ return of unaccepted share certificates/ credit of unaccepted Equity Shares to Demat Account.	Wednesday, August 06, 2025	Thursday, September 25, 2025

*The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure of tendering period.

2. Para 6 of the Detailed Public Statement should be read as under:

The Brief financials of the AIL are as under

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
Total Income/Net Income	229.35	405.12	742.64	553.90
Profit After Tax	3739.47	1704.05	466.62	324.81
Earnings Per Share (EPS) (in Rs)	34.64	15.78	4.32	3.00
Net worth	5703.78	7407.73	7738.20	7929.00
* Course As Cartified by statutory audit	or of the Target Company M/	a P. P. Guerta & Co., Char	tored Associationts (Firm	- Decistration Number

Source: As Certified by statutory auditor of the Target Company, M/s B R Gupta & Co., Chartered Accountants (Firm Registration Number: 008352N), through its partner Ms. Shikha Aggarwal, (Membership Number: 509191), having its office at K-55 Connaught Circus New Delhi-110001 vide its Certificate dated 12th August, 2025, Phone Number: 011-43503680, Email id: brg@brgupta.com. The above dates where ever it appeared in the Detailed Public Statement should be read accordingly.

The Acquirer(s) accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Detailed Public Statement and also the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 & subsequent amendments thereof. This Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

Date: 18.08.2025

Place: New Delhi

D & A Financial Services (P) Limited 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065 Tel: 011-41326121/40167038 Email: investors@dnafinerv.com Contact Person: Ms. Radhika Pushkarna

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF

ESAAR (INDIA) LIMITED

"ESAAR"/ "EIL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L67120MH1951PLC222871) Registered Office: Shop No. 06, Prathamesh Avenue, Datta Mandir Road, Malad East, Mumbai, Maharashtra, India, 400097; Corporate Office: 101, First Floor, Western Edge I, Western Express Highway, Borivali (East), Mumbai, Maharashtra, India, 400066 Phone No.: +91-8104417080 / 8858498847; Email id: cs@esaar.in; Website: www.esaar.in

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of M/s. Prabhat Capital Investments Limited (Acquirer) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2025/21735/1 dated August 12, 2025 on in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 53,15,050 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkaal - Marathi Daily (Mumbai edition) on February 24, 2025.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION

Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set for that below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	14.02.2025	Friday	14.02.2025	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	24.02.2025	Monday	24.02.2025	Monday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	24.02.2025	Monday	24.02.2025	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	04.03.2025	Tuesday	04.03.2025	Tuesday
Last date for a Competing offer	19.03.2025	Wednesday	19.03.2025	Wednesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	26.03.2025	Wednesday	12.08.2025	Tuesday
Identified date*	28.03.2025	Friday	14.08.2025	Thursday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	07.04.2025	Monday	22.08.2025	Friday
Last date for revising the Offer Price	11.04.2025	Friday	28.08.2025	Thursday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	11.04.2025	Friday	28.08.2025	Thursday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	15.04.2025	Tuesday	29.08.2025	Friday
Date of Opening of the Offer	16.04.2025	Wednesday	01.09.2025	Monday
Date of Closure of the Offer	30.04.2025	Wednesday	15.09.2025	Monday
Post Offer Advertisement	08.05.2025	Thursday	22.09.2025	Monday
Payment of consideration for the acquired shares	16.05.2025	Friday	29.09.2025	Monday
Final report from Merchant Banker	23.05.2025	Friday	07.10.2025	Tuesday

would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity share of the Target Company (except the Acquirer, existing Promoter / Seller, person mentioned under para 4.8 of the LOF) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of

Update in the Offer Price: The offer price was initially decided at Rs. 7/- (Rupees Seven Only) per equity share in accordance with Regulation 8 (8) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Further in accordance with SEBI email dated July 30, 2025, public announcement should have been made on August 03, 2024. However, the same was made on February 14, 2025. Accordingly, since there is delay in making open offer by the Acquirer. Accordingly, in addition to the offer price mentioned above, the Acquirer was advised to revise the offer price and pay interest @ 10% per annum as prescribed in Regulation 18 (11A) of SEBI (SAST) Regulations for any delay in payment beyond the Scheduled Payment Date (period commencing from the Scheduled Payment Date till the actual date of payment of consideration under the Offer). For the purpose of clarification, it may be noted that the aforesaid interest will be payable to all the successful Public Shareholders, whose Shares are validly tendered and accepted in the Offer. Accordingly, the Offer Price has been revised to Rs. 8.00/- (Rupees Eight only) including interest @ 10% per annum per equity share for delay in payment beyond the scheduled payment date per fully paid- up Equity Share of Rs. 10 each.

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA. DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER



NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059. Email id: navigant@navigantcorp.com

Website: www.navigantcorp.com SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai Date: August 18, 2025 ASSOCIATED

ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LIMITED

CIN: L15520MP1989PLC049380 Registered / Corporate Office: 4th Floor, BPK Star Tower,

A.B. Road, Indore - 452008 (M.P.) India. Contact: +91 731 4780400 / 490 | E-mail: info@aabl.in

NOTICE

100 Days Campaign "Saksham Niveshak" for KYC and other related updation and Shareholder engagement to prevent transfer of Unpaid / Unclaimed Dividends to Investor Education & Protection Fund ("IEPF")

Notice is hereby given to the Shareholders of Associated Alcohols

& Breweries Limited ("your Company") that pursuant to Investor Education & Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") letter dated July 16, 2025 your Company has started 100 days campaign "Saksham Niveshak" starting from July 28, 2025 to November 6, 2025. During this Campaign all the shareholders who have not claimed their Dividend or have not updated their KYC & nomination details or face any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Companie's Registrar and Transfer Agent ("RTA") i.e. M/s. Ankit Consultancy Pvt. Ltd., e-mail Id: investor@ankitonline.com and further e-mail to be send to the company at e-mail ld: investorrelations@aabl.in The shareholders may further note that this campaign has been started proactively and specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, Bank mandates, Nominee and contact information etc. and claim their unpaid / unclaimed Dividend in order to prevent their shares and dividend amount from being transferred to the IEPFA.

> For: Associated Alcohols & Breweries Limited Sd/-

Tushar Bhandari

Whole Time Director & Nodal Officer Date: 18.08.2025 DIN: 03583114 Place: Indore



CAMLIN FINE SCIENCES LIMITED

CIN: L74100MH1993PLC075361 Registered Office: Floor 2 to 5, Building "in G. S. Point", C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098, India. Tel: 91-22-67001000; Fax: 91-22-28324404;

Email: secretarial@camlinfs.com; Website: www.camlinfs.com POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Secretarial Standard-2 on General Meetings ("the SS-2"), read with various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable provisions of the Act, rules, regulations, circulars and notifications (including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), a special resolution for the re-appointment of Mr. Joseph Conrad D'Souza (DIN: 00010576) as a Non-Executive Independent Director of the Company for a second term of five consecutive years is proposed for approval of the Members of Camlin Fine Sciences Limited ("the Company") by way of Postal Ballot through Remote E-Voting i.e. Voting through Electronic Means only ("Remote e-Voting").

In compliance with the above-mentioned provisions and the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has completed electronic dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement pertaining to the aforementioned resolution on Monday, August 18, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners maintained by the Company / Depositories as at close of business hours on Thursday, August 14, 2025 (i.e. Cut-off date) and whose email address were registered with the Depository Participants or with the Company as on the Cut-off date.

The copy of the Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.camlinfs.com, website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com.

Instructions for Remote E-Voting:

The Remote E-Voting will commence on Tuesday, August 19, 2025 at 09:00 a.m. IST and will end on Wednesday, September 17, 2025 at 5:00 p.m. IST. Remote e-Voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time.

Voting rights of a Member / Beneficial Owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. Members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date shall only be considered eligible for the purpose of e-voting and those members would be able to cast their votes and convey their assent or dissent to the proposed resolution only through the Remote E-voting process. Any person who is not a Member as on the Cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

Please note that there will be no dispatch of physical copies of Notices or Postal Ballot forms to the Members of the Company and no physical ballot forms will be accepted. Members are requested to carefully read the instructions in this Postal Ballot Notice and record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) only through the Remote E-Voting process not later than 5:00 p.m. IST on Wednesday, September 17, 2025, in order to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no vote has been received from the Member.

Process for those Members whose email ids are not registered with the Depositories/ the Company:

To facilitate Members to receive this Postal Ballot Notice electronically and cast their vote electronically, the Company has made special arrangement with its Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited for registration of e-mail addresses. Eligible Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same (i) with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in electronic form, and (ii) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register / update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at www.camlinfs.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to MUFG Intime India Private Limited ("Registrar and Share Transfer Agent") at C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. J. H. Ranade, Partner failing which Mr. Sohan J. Ranade, Partner failing which Ms. Tejaswi Jogal, Partner of M/s. JHR & Associates as the Scrutinizer for conducting the e-voting process electronically in a fair and transparent

The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e., Wednesday, September 17, 2025. The results of the voting conducted through Postal Ballot (Remote E-Voting process) along with the Scrutinizer's Report will be announced by the Chairman or person authorized by the Chairman, on or before Friday, September 19, 2025. The results will also be displayed on the website of the Company, www.camlinfs.com, under the Investors Relations and at the Registered Office of the Company, website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.


In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL, at evoting@nsdl.com.

Members are requested to carefully read the notes set out in the Postal Ballot Notice and in particular, the manner of casting vote through Remote E-Voting.

> For Camlin Fine Sciences Limited Rahul Sawale

Company Secretary & V. P. Legal Place : Mumbai Date : August 18, 2025 ICSI Membership No. A29314

New Delhi



जनसता

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के नियम

8(1) के अनुपालन में, और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों को उधारकर्ता/ओं को, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि/ नोटिस की तारीख से 60 दिवसों के अंदर, सूचना में वर्णित राशि के प्रतिमुगतान हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता /ओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नेयम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों को कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता /ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतददारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन—देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन राशि तथा ऋण समझौते के अनसार

उस पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता /सह— उधारकर्ता/ गारंटर/ कानूनी त्तराधिकारी का नाम	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना तिथि के के अनुसार बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
HOU/FBD/ 0522/993892 बी.ओ.: फरीदाबाद,	श्री अमरश कुमार एवं श्रीमती रितिका	06.06.2025	रु. 37,48,115.67 /— (सैंतीस लाख अड़तालीस हजार एक सौ पंद्रह रु.और सड़सठ पैसे मात्र)	13.08.2025 (प्रतीकात्मक)	मकान संख्या 322, दूसरी मंजिल, छत के साथ, सूर्य नगर फेज II, सेक्टर 91, फरीदाबाद, हरियाणा —121002
HOU/MEE/0324 /1235827 और NHL/MEE/0724 /1284448 ਵੀ.ओ.: ਮੇਂਪਰ	स्वर्गीय श्री अमल कुमार और श्रीमती प्रतिमा प्रतिमा के सभी कानूनी उत्तराधिकारी	07.05.2025	रु. 52,72,131.10/— (बावन लाख बहत्तर हजार एक सौ इकतीस रु. और दस पैसे मात्र) 07.05.2025 तक देय	14.08.2025, (प्रतीकात्मक)	प्लॉट संख्याः ए –13 पर मकान निर्मित, हरिलोक कॉलोनी, खसरा संख्या–263, 270 मी. , 273 और 338 मीटर/5, गाँव– दांतल कांकेर खेड़ा, परगना, तहसील और जिला–मेरठ, उत्तर प्रदेश– 250001
HOU/MEE/ 0818/572078 बी.ओ.: मेरठ	श्री संदीप पुंडीर आर श्रीमती बीना पुंडीर	15.04.2025	रु. 16,61,572.50/— (सोलह लाख इकसठ हजार पाँच सौ बहत्तर रु. एवं पचास पचास पैसे मात्र)	14.08.2025, (प्रतीकात्मक)	भूतल पलेट , प्लॉट नंबर 72 पर, खसरा नंबर 3/2,5/1, 6,7,9,10, 11,12/2,13/2,14/2,14 / 3,15,16,17,20,26, विश्राम वाटिका, राजस्य ग्राम सोफीपुर पिलाना, परगना तहसील और जिला—मेरठ, उत्तर प्रदेश—250001
0005666 0002298 बी. ओ : मेरठ	श्रीमती सीमा शर्मा एवं श्री पवन कुमार	15.04.2025	रु. 6,64,104.88/— (छह लाख चौसठ हजार एक सौ चार रुपए एवं चौरासी पैसे मात्र)	14.08.2025, (प्रतीकात्मक)	एच नं. 183/ए/1, औरंग शाहपुर डिग्गी, जागृति विहार, भेरठ, उत्तर प्रदेश—250004
स्थानः फरीदाबाद	, मेरठ, दिनांकः 18.08.2	025		हस्ता. /-प्राप्ति	वेकृत अधिकारी , पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड Cent Bank Home Finance Limited

शाखा कार्यालयः ३ई / 10, मेजेनाइन फ्लोर, नव दुर्गा भवन, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन: 011-35000439

बकाया माग

स्चना राशि (रै)

+ लागू ब्याज

और

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India

परिशिष्ट IV [नियम ८(1)] (कब्जा नोटिस) अचल संपत्ति के लिए हस्ताक्षरकर्ता ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट–2002 के अधीन जो कि **सेन्ट बैक होम फाइनेंस लिमिटेड**. दिल्ली शास्त्रा का प्राधिकत अधिकारी है। प्रतिभृति डित प्रवर्तन 2002 के नियम 3 साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सुधना नीचे खाते के आगे लिखित दिगांक को एक नोटिस में वर्णित टाशि एवं अकित दिगांक से ब्याज एवं अन्य प्रमार, सुचना की प्राप्ति की दिगांक से 🙃 दिन के भीतर **सेन्ट बैक होग फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली** को प्रतिदाय करने की गांग करने के लिये जारी किया। अधोलिखित ऋणी द्वारा रकम का भुगतान करने में असफल रहने पर उधार लेने वाले ऋणी, जमानतदार और जनसाधारण को यह सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त एक्ट की घारा 13 (4) के अन्तर्गत इस नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे खाते के आगे लिखित दिनांक को इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उदार लेने वाले ऋणी 🗸 जमानतदार एवं विशिष्ट रूप से जनसाधारण हो इस के द्वारा चेतावनी दी जाती है की इस संपत्ति के संबंध में व्यवहार न करें एवं संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार **सेन्ट बैंक होम फाइनेंस क्षिमिटेड**.

दिल्ली के खाते के आगे वर्णित टाशि दी गई **एन.पी.ए दिनांक 10.01.2023** के बाद ब्याज एवं अन्य प्रभार के अधीन होगा। खाते का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम स.	उधारकर्ता / गारंटर का नाग, पता और खाता संख्या	संपत्ति का विवरण
1.	श्री ब्रिज मोहन सचदेवा और श्रीमती पूनम रानी ऋण खाता संख्याः 00603010000087	प्लॉट संख्या बी–354, खसरा संख्या 1377, ब्लॉक बी, न्यू पंचवटी कॉलोनी, हदबस्त ग्राम– ढूंडाहेडा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद,
	त्तर प्रदेश में बिना छत याला भूतल। बौहद्दी: उत्तर में: प्लॉट संख्या बी-353 संख्या बी-343, पश्चिम में: 24 फीट चीड़ी	, दक्षिण में: प्लॉट संख्या बी–355, पूर्व में: प्लॉट

नियम् 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, मांग नोटिस प्रकायन के मध्यम से भी दिया जा रहा है:

रथानः दिल्ली, दिनांकः 19.08.2025

अन्य शुल्क प्राधिकृत अधिकारी, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली

मांग सूचना/

कब्जे की तिथि

29/04/2023

13/08/2025



(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेवान कंपाएंड, वेरावल, गुजरात - 382268 शाखा कार्यालय- जी-कॉर्प टेक पार्क, 8वीं मंजिल, कसार वडावली, जी होदबंदर रोड, थाने, महाराष्ट्र-400601

मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के अंतर्गत) विताय आस्तया के प्रतिमृतिकरण और पुनानमाण तथा सुरक्षा हित अधिनयम, 2002 के प्रवर्तन का बारा 13(2) अंतगत नाटिस का प्रतिस्थापित सुधना सवा । नीये उल्लिखेत उद्यारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि चूंकि उन्होंने आदित्य विद्वला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएयएफएल) से प्राप्त ऋण सुविधा पुनर्मुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को आत्थीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कपनी की पुस्तकों में मैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, एबीएचएफएल ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर प्रतिभृतिकरण और विसीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उनसे उक्त राष्टि पर सर्विदात्मक दर पर आगे ब्याज और उक्त मांग नोटिस में बताए गए आकस्मिक व्यय, लागत, मुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाने की मांग की गई है। हालाँकि, सुरक्षा हित (प्रवर्तन)

क्र	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और गारंटर / सह-उधारकर्ता के नाम और	एनपीए की	मांग नोटिस की	मांग नोटिस के अनुसार देव
सं	पता और /ऋण खाता संख्या	तिथि	तिथि	रामि/तारीख के अनुसार
1.	श. गीलू कुमार फर्नेट संख्या 202. दूसरी महिल्ल, सामने का आरएफएस प्रतेट, खसरा संख्या 79/4, प्लीट संख्या आरजेडएच-Aii/125-ए. पालम गींव की राजस्व संपदा में स्थित, कीलोनी जिसे महावीर एन्क्लेंच विदेश प्रतिचा दिल्ली, 110045 के नाम से खाना जाता है। 2 सोनिया संदी फ्लैट संख्या 202. दूसरी मिंवल, सामने का आरएचएस फर्नेट, खसरा संख्या 78/4, प्लीट संख्या आरजेडएच-III/125-ए. पालम गींव की राजस्व संपदा में स्थित, कॉलोनी जिसे महावीर एन्क्लेंच, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, 110045 के नाम से जाना जाता है। 3. गोलू कुमार फर्नेट नंबर 503, अनंत होम्स, हनुमान मार्ग, संबटर 73, नोएखा, गीतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 201301 4. सोनिया संठी फ्लैट नंबर 503, अनंतम होम्स, हनुमान मार्ग, संबटर 73, नोएखा, गीतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 201301 5. गीलू कुमार सी/ओ राववयुक्त इंडिया प्राइचेट। लिमिटेड बी-23, प्रथम राल, संबटर-63, नोएखा, गीतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, 201301। ऋण खाता संख्या LnDnDOHL-12240249017 और LnDnDOHL-12240249016	01 08 2025	12 08 2025	हः 50.31,459 / - (रुपये प्रधास लाख इकतीस हज्जर बार सी जनसठ मात्र) बकाया मूलधन बकाया (उपाणित विलंब सुल्क सहित) और ब्याउट के रूप में 06.08.2025 तक

क्रवल संपत्ति का विवरण) गिरवी रखी गई संपत्ति निर्मित इकाई संख्या 202 का वह पूरा टुकडा, दूसरी मंजिल पर, सामने की और, बिना छत /टेरेस अधिकार बं क्षेत्रफल 86 वर्ग गज अर्थात 71,9046 वर्ग मीटर, उपरोक्त संपत्ति संख्या Rzhlii/125-A पर निर्मित, कुल क्षेत्रफल 170 वर्ग गज अर्थात 142,137 वर्ग मीटर में र खसरा संख्या 79/4 में से, ग्राम पालम, दिल्ली एस्टेट दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित, कॉलोनी महावीर एन्क्लेय, नई दिल्ली—110045 के रूप में जानी जाती है और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: पीछे की ओर इकाई / गली पश्चिम: स्ट्रीट 15 फीट बीझ उत्तर: सामने बाई और यूनिट संख्या 201 / संपत्ति संख्या एव–3 / 125—वी

हम इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया हाँहा (सांक्षियों) उस पर अतिरिक्त ब्याज के साथ-साथ लागत, शुल्क, व्यव आदि का शुगतान करने के लिए यहाँ वर्णित उधारकर्ता से आधह करते हैं। ऐसा न करने पर इम सुत्ताा हिंत को लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से आपके जोखिन पर सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेना और बेचना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। कृपया ध्यान दें कि सरकंसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पहें या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षि

परिशंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया हैं। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई मी उल्लंधन शरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा। कृपया ध्वान यें कि अधिनियम की धारा 13 की जमधारा (8) के अनुसार, यदि एबीएजएफएल की बकरया राति, एबीएकएफएल द्वारा बहन की गई सभी लागती. शुल्कों और व्ययों को बिकी वा इसकारण के लिए निकीरत विधि से पहले किसी भी समय एबीएकएफएल को सीप दिया जाता है. तो एबीएचएकएल द्वारा सुरक्षित परिसंपति को बेचा या इस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और एबीएचएकएल द्वारा जस सुरक्षित परिसंपत्ति के इस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं छठाया जाएगा।

বিশাক: 19 08 2025 स्थानः दिल्ली

हरता/- प्राविकृत अविकारी (आदित्य बिक्ता हातसिंग फाइनेंस लिमिटेंड)

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF ADDI INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: - A-104, Third floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi-110020.

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer(s) Mr. Rajat Goyal, Mrs. Neha Agarwal, M/s Rajat Goyal HUF, Mr. Sandeep Mittal, Mrs. Ruchi Mittal and M/s Sandeep Mittal & Sons HUF pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Detailed Public Statement ("DPS"), unless otherwise specified. Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the DPS, unless otherwise

The shareholders of Addi Industries Limited are requested to note that the developments/amendments with respect to and in connection with DPS are as under:

The revised schedule of activity pertaining to the Open Offer has been changed and shall be read as under

1.	The revised schedule of activity pertaining to the Open Offer has been changed and shall be read as under.								
Sr. No	Activity	Original Schedule (Days & Dates)	Revised Schedule (Days & Dates)						
1.	Date of Public Announcement	Tuesday, May 20, 2025	Tuesday, May 20, 2025						
2.	Date of Publication of Detailed Public Statement	Tuesday, May 27, 2025	Tuesday, May 27, 2025						
3.	Filing of the Draft Letter of Offer to SEBI	Tuesday, June 03, 2025	Tuesday, June 03, 2025						
4.	Last Date for a Competitive Offer(s)	Tuesday, June 17, 2025	Tuesday, June 17, 2025						
5.	Identified Date*	Thursday, June 26, 2025	Monday, August 11, 2025						
6.	Date by which Final Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Thursday, July 03, 2025	Wednesday, August 20, 2025						
7.	Last Date for revising the Offer Price/ number of shares.	Monday, July 07, 2025	Friday, August 22, 2025						
8.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations.	Tuesday, July 08, 2025	Monday, August 25, 2025						
9.	Date of Publication of Offer Opening Public Announcement	Wednesday, July 09, 2025	Tuesday, August 26, 2025						
10.	Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening date)	Thursday, July 10, 2025	Thursday, August 28, 2025						
11.	Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing date)	Wednesday, July 23, 2025	Thursday, September 11, 2025						
12.	Last Date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for applications accepted/return of unaccepted share certificates/credit of unaccepted Equity Shares to Demat Account.	Wednesday, August 06, 2025	Thursday, September 25, 2025						

*The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure

2. Para 6 of the Detailed Public Statement should be read as under:

The Brief financials of the AIL are as under:

(Rs. In Lakhs)

	(III. III Lakiis)										
Particulars	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)							
Total Income/Net Income	229.35	405.12	742.64	553.90							
Profit After Tax	3739.47	1704.05	466.62	324.81							
Earnings Per Share (EPS) (in Rs)	34.64	15.78	4.32	3.00							
Net worth	5703.78	7407.73	7738.20	7929.00							

*Source: As Certified by statutory auditor of the Target Company, M/s BR Gupta & Co., Chartered Accountants (Firm Registration Number: 008352N), through its partner Ms. Shikha Aggarwal, (Membership Number: 509191), having its office at K-55 Connaught Circus New Delhil 10001 vide its Certificate dated 12th August, 2025, Phone Number: 011-43503680, Email id: brg@brgupta.com.

The above dates where ever it appeared in the Detailed Public Statement should be read accordingly. The Acquirer(s) accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Detailed Public Statement and also the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 & subsequent amendments thereof.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

This Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.



D & A Financial Services (P) Limited 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065 Tel: 011-41326121/40167038 Email: investors@dnafinerv.com Contact Person: Ms. Radhika Pushkarna

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF

("ESAAR"/ "EIL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L67120MH1951PLC222871) Registered Office: Shop No. 06, Prathamesh Avenue, Datta Mandir Road, Malad East, Mumbai, Maharashtra, India, 400097; Corporate Office: 101, First Floor, Western Edge I, Western Express Highway, Borivali (East), Mumbai, Maharashtra, India, 400066 Phone No.: +91-8104417080 / 8858498847; Email id: cs@esaar.in: Website: www.esaar.in

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011

This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of M/s. Prabhat Capital Investments Limited (Acquirer) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2025/21735/1 dated August 12, 2025 on in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 53,15,050 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkaal - Marathi Daily (Mumbai edition) on February 24, 2025.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	14.02.2025	Friday	14.02.2025	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	24.02.2025	Monday	24.02.2025	Monday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	24.02.2025	Monday	24.02.2025	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	04.03.2025	Tuesday	04.03.2025	Tuesday
Last date for a Competing offer	19.03.2025	Wednesday	19.03.2025	Wednesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	26.03.2025	Wednesday	12.08.2025	Tuesday
Identified date*	28.03.2025	Friday	14.08.2025	Thursday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	07.04.2025	Monday	22.08.2025	Friday
Last date for revising the Offer Price	11.04.2025	Friday	28.08.2025	Thursday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	11.04.2025	Friday	28.08.2025	Thursday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	15.04.2025	Tuesday	29.08.2025	Friday
Date of Opening of the Offer	16.04.2025	Wednesday	01.09.2025	Monday
Date of Closure of the Offer	30.04.2025	Wednesday	15.09.2025	Monday
Post Offer Advertisement	08.05.2025	Thursday	22.09.2025	Monday
Payment of consideration for the acquired shares	16.05.2025	Friday	29.09.2025	Monday
Final report from Merchant Banker	23.05.2025	Friday	07.10.2025	Tuesday

would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity share of the Target Company (except the Acquirer, existing Promoter / Seller, person mentioned under para 4.8 of the LOF) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

2. Update in the Offer Price: The offer price was initially decided at Rs. 7/- (Rupees Seven Only) per equity share in accordance with Regulation 8 (8) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Further in accordance with SEBI email dated July 30, 2025, public announcement should have been made on August 03, 2024. However, the same was made on February 14, 2025. Accordingly, since there is delay in making open offer by the Acquirer. Accordingly, in addition to the offer price mentioned above, the Acquirer was advised to revise the offer price and pay interest @ 10% per annum as prescribed in Regulation 18 (11A) of SEBI (SAST) Regulations for any delay in payment beyond the Scheduled Payment Date (period commencing from the Scheduled Payment Date till the actual date of payment of consideration under the Offer). For the purpose of clarification, It may be noted that the aforesaid interest will be payable to all the successful Public Shareholders, whose Shares are validly tendered and accepted in the Offer. Accordingly, the Offer Price has been revised to Rs. 8.00/- (Rupees Eight only) including interest @ 10% per annum per equity share for delay in payment beyond the scheduled payment date per fully paid-up Equity Share of Rs. 10 each.

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED



804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059. Tel No. +912241204837/49735078

Email id: navigant@navigantcorp.com Website: www.navigantcorp.com SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai Date: August 18, 2025



सीआईएन : L85110DL2004PLC128319

(पहले ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालय : मेदांता मेडिक्लिनिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 024 निगमित कार्यालय : मेदांता – द मेडिसिटी, सेक्टर – 38, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001

दूरभाष : +91 124 483 4060, ई-मेल : compliance@medanta.org, वेबसाइट : https://www.medanta.org 21वीं वार्षिक आम बैठक के सदस्यों को सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ें, नवीनतम क्रमश परिपत्र संख्या ९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर, २०२४ है (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी परिपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2024 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में, एजीएम सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, अर्थात मिदांता—मेडिक्लिनिक, ई–18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली– 110024 होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से की जाएगी। उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी |या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास शुक्रवार, | 22 अगस्त, 2025 तक पंजीकृत हैं। उपरोक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट https://www.medanta.org/investor-relation/ पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों https://www.bseindia.com/index.html और https://www.nseindia.com/ पर और नेशनल सिक्योरिटीज | डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट : https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') प्रदान करेगी। कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम

कि माध्यम से वोटिंग की सुविधा ('ई–वोटिंग') भी प्रदान करेगी। सर्टिफिकेट फॉर्म या डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उल्लेखित की जाएगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रमाण पत्र के रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म ISR-1 (पैन, केवाईसी विवरण या

परिवर्तन / अद्यतन करने के लिए फॉर्म) को आरटीए के पते यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर–बी, प्लॉट 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी 500032, तेलंगाना पर भेजकर या अपने पंजीकृत ई–मेल आईडी से einward.ris@kfintech.com पर ईमेल करके अपना ई–मेल पता अपडेट करें। पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन के अद्यतन के लिए फॉर्म उदाहरणार्थ फॉर्म ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13 कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.medanta.org/investor-relation/ और RTA वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यगण, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपने ईमेल पते को उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अपडेट करें।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 15 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 0.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की संस्तुति की थी। यदि अंतिम लाभांश स्वीकृत हो जाता है, तो इसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम शुक्रवार 22 अगस्त 2025 ('रिकॉर्ड तिथि') तक सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट होंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे भुगतान तिथि पर सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपनी डिपॉजिटरी (जहाँ शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं) और आरटीए (जहाँ शेयर प्रमाण पत्र रूप में रखे जाते हैं) के साथ अपने केवाईसी को अपडेट

आय कर अधिनियम 1961 ("आईटी अधिनियम") के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को आय कर अधिनियम में निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ('टीडीएस') काटना आवश्यक है। इस संबंध में आगे की जानकारी एजीएम सूचना में उपलब्ध होगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, कृपया https://www.evoting.nsdl.com/ के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या 022 4886 7000 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेजें।

कृते ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड हस्ता./-

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

राहुल रंजन

स्थान : गुरुग्राम दिनाँक : 18 अगस्त, 2025

SWAGTAM TRADING & SERVICES LIMITED CIN: L51909DL1984PLC289131 Regd. Office: R-489, GF-A, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060 Tel: 011-42475489 E-mail: swagtam1984@gmail.com Website: www.swagtam.com

Swagtam Trading & Services Ltd. has emailed its 40th Annual Report for FY 2024–25 on 16th August 2025. The 40th AGM will be held on Monday, 8th September 2025 at 11:30 A.M. via VC/OAVM. The Notice, Annual Report, and e-voting details (EVEN: 134984) are available at www.swagtam.com, www.bseindia.com, and www.evoting.nsdl.com. E-voting is open from 3rd to 7th September 2025. The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 3rd to 8th September 2025. Members are advised to update their contact details for timely communication.

For Swagtam Trading & Services Limited

Vinod Bala

पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड सीआईएन: L27109UP1985PLC006998 पंजीकृत कार्यालयः बी-10, वीआईपी कॉलोनी, सिविल लाइंस, रामपुर-244901, उत्तर प्रदेश

कॉर्पोरेशन कॉर्यालयः 201 और 202, द्वितीय तल, रतन ज्योति भवन, 18, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 फोन— 011— 47631025, 26, 27, ईमेलः compliances@pmcfincorp.com, वेबसाइटः www.pmcfincorp.com 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना वीसी ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लॉजर के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एततद्वारा सचित किया जाता है कि पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड ("कंपनी") की 40वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') गुरुवार 11 सितंबर, 2025 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जाएगी। (प्रथम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (''ओवीएएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित अनुसार कारोबार का संचालन करने के लिए।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या ९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर, 2024 ('एमसीए परिपत्र') और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी परिपत्र संख्या S. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR12024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट और बैठक की सुचना की भौतिक प्रतियां संबंधित परिपत्रों के माध्यम से भेजने की आवश्यकता के संबंध में छूट प्रदान की है। इस प्रकार कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिंक के साथ 40वीं वार्षिक आम बैटक (एजीएम) की सूचना सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है, जिनके

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और भाग ले सकते हैं, जैसा कि बैठक की सूचना में दर्शाया गया है।

ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शम ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार') डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास

कंपनी एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली www.evoting.nsdl.com के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रही है।

एमसीए और सेबी द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना की जाएगी। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग

अधिनियम की धारा 108 और संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (शरिमोट ई-वोटिंगश) का उपयोग करके वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। शेयरधारकों के मतदान अधिकार गुरुवार, 4 सितंबर, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और बुधवार, 10 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (पहली तारीख) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान. शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र

जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थितध्माग ले सकते हैं. लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो इस एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co-in पर अनुरोध भेजकर या (022 – 48867000 / 022 –24997000) पर कॉल करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम से पहले या उसके दौरान किसी भी सहायता के लिए या ई-वोटिंग सदस्यों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, वे शेयरधारकों के लिए बारंबार पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 / 1800-224-430 पर कॉल कर सकते हैं या प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रा एनएसडीएल, ईमेलः pallavid@nsdl.co.in को अनुरोध भेज सकते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भी शामिल कंपनी की वेबसाइट www.pmcfincorp.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evotIng.nsdl.com पर उपलब्ध है। बुक क्लोजरः कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहीखाते 40वीं वार्षिक आम बैठक के

स्थानः नई दिल्ली,

दिनांकः 18 अगस्त, 2025

लिए शुक्रवार, 5 सितंबर, 2025 से गुरुवार, 11 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड के लिए, (कंपनी सचिव)



एपाएल अपाला ट्यूब्स लिमिट ए पंजीकृत कार्यालय : 37 हरगोविन्द एन्कलेव विकास मार्ग, दिल्ली-110092

कॉर्पोरेट कार्यालय : एसजी सेंटर, 37-सी, ब्लॉक-बी, नोएडा सेक्टर 132, नोएडा-201304 दूरभाष : 91-120-6918000. सीआईएन : L74899DL1986PLC023443 ई-मेल : investors@aplapollo.com वेबसाइट : www.aplapollo.com

40वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सुचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित

नियमों एवं कार्पोरेट कार्य मन्त्रालय ('एमसीए') परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 और इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों नवीनतम परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' सन्दर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियम''] तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") के अनुसार किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंस ('वीसी') सुविधा के माध्यम से सोमवार, 15 सितम्बर, 2025 को 11.00 बजे पूर्वा. कम्पनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम')

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 40वीं एजीएम और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की सुचना, ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 40वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ, केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी. जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं और जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनके पंजीकृत पते पर एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें वेब-लिंक और सटीक पाथ प्रदान किया जाएगा जहां एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को 40वीं एजीएम और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की सुचना की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। सदस्य 40वीं एजीएम में केवल वीसी सुविधा के माध्यम से शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने

हेतु निर्देश सूचना में प्रावधानित हैं। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने में की जायेगी। 40वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com), स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जायेगी। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की भौतिक प्रति इसके लिए अनुरोध करने वाले सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 75.75 प्रति इक्विटी शेयर, जिसका नाममात्र मूल्य 72/- है, निदेशक

मंडल द्वारा अनुशंसित, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लाग कर की कटौती के बाद वार्षिक आम बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को जमा/प्रेषित किया जाएँगा जिनके नाम लाभांश के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि अर्थात 22 अगस्त, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर, या उनके मैंडेट में दर्ज हैं। सदस्यों द्वारा अभौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, इस प्रयोजन हेत डिपॉजिटरी से प्राप्त लाभभोगी स्वामित्व के विवरण के आधार पर लाभांश जमा/प्रेषित किया कंपनी अपने सभी सदस्यों को 40वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट

ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम के दौरान) प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश उक्त सूचना में दिए गए हैं। सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ('ई-वोटिंग') सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 12 सितंबर, 2025 को सबह 10:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होकर 14 सितंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास 8 सितंबर, 2025 की कट-ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर हैं, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने कंपनी या आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है. वे 40वीं वार्षिक आम बैठक

की सचना, एकीकत वार्षिक रिपोर्ट और 40वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ई-वोटिंग सहित मेसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को rta@abhipra.com पर या कंपनी को investors@aplapol'o.com पर अनुरोध भेजना होगा। इसके लिए उन्हें अपना नाम, फोलियो नंबर/डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति (डीमैट होल्डिंग के मामले में), शेयर प्रमाणपत्र की प्रति - आगे और पीछे (भौतिक होल्डिंग के मामले में), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और ई-मेल पता पंजीकत करने के समर्थन में आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रदान करनी होगी।

डीमैट धारक होने की स्थित में, कपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट खाते में ईमेल पता और बैंक खाते का विवरण पंजीकृत करें।

कोई भी व्यक्ति जो 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 8 सितंबर, 2025 तक शेयर धारक है, वह 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के संबंध में आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत Frequently Asked Questions ('FAQs') तथा e-voting manua' देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 18002109911 पर कॉल कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/Pod-1/P/CIR/2024/37 दिनांक 07 मई, 2024 के अनुसार, कंपनी के भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए कंपनी/आरटीए को पैन और केवाईसी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित प्रपत्र में अपना नामांकन पूरा करें। इस संबंध में, सेबी द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट

https://aplapollo.com/downloads से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 1. फॉर्म आईएसआर-1 (पैन, केवाईसी विवरण या उनमें परिवर्तन/अद्यतन के लिए अनुरोध);

2. फॉर्म आईएसआर-2 (सदस्यों के बैंकरों द्वारा हस्ताक्षर की पष्टि): 3. फॉर्म एसएच-13 (नामांकन फॉर्म) या फॉर्म आईएसआर-3 (नामांकन से बाहर निकलने की घोषणा) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, लागू

कानूनों के अनुसार, सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर यथासमय भेजी जाएगी। भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः जमा करने के लिए विशेष विंडोः सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने की सुविधा के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6

जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो प्रदान की जा रही है। यह सुविधा केवल 1 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए उन हस्तांतरण विलेखों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें दस्तावेजीकरण या प्रक्रिया संबंधी मुद्दों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था, या अप्राप्य छोड़ दिया गया था। अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अभिप्र कैपिटल लिमिटेड, अभिप्रा कॉम्प्लेक्स,

दिलखुश औद्योगिक क्षेत्र, जी.टी. करनाल रोड, आजादपुर, नई दिल्ली-110033, दूरभाष: 011-42390725 ई-मेलः rta@abhipra.com को प्रस्तुत किया जा सकता है। नोटः पुनः दर्ज किए गए स्थानांतरण केवल डीमैट प्रारूप में ही संसाधित किए जाएँगे। एक डीमैट खाता अनिवार्य

है। निवेशकों को स्थानांतरण दस्तावेजों, शेयर प्रमाणपत्रों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ क्लाइंट मास्टर सुची प्रस्तुत करनी होगी। 6 जनवरी, 2026 के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कृते एवं हिते एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड

विपुल जैन

तिथि : 18 अगस्त, 2025 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थान : नोएडा

epaper.jansatta.com

This is to reference of our Public Notice dated 18th June 2025 published in the newspapers viz. Active Times and Mumbai Lakhsdeep, Mumbai for lost / misplaced of Original Share Certificate No. 75. Kindly read the

Sd/-M/s. Bhogale & Associates Date: 19.08.2025 Place: Mumbai

Share Certificate No. 028.



''फॉर्म क्र. युआरसी–२'

कायद्याचे प्रकरण २१ च्या भाग १ अंतर्गत नोंदणीकरणासंदर्भात सूचना देणारी जाहिरात (कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ३७४ (बी) व कंपनी (नोंदणीकरणास अधिकृत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ (१) अंतर्गत)

- यादारे सचना देण्यात येत आहे की. कंपनी कायदा. २०१३ चे अनच्छेद ३६६ चे उप अनच्छेद (२) च्य अनुपालनांतर्ग ''**एसपी पॉवर सर्व्हिसेस एलएलपी**'' एक मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था यांचे कंपनी कायता २०१३ च्या प्रकरण २१ च्या भाग १ अंतर्गत शेअर्मतारे मर्यातित कंपनी म्हणन नोंटणीकरण करण्यासाठी कंपनी निबंधक, मुंबई (महाराष्ट्र) यांच्याकडे पंधरा दिवसांच्या पश्चात, परंतु तीस दिवसांच्या आत अर्ज करण्याचे प्रस्तावित आह
- कंपनीची मख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- अ) विद्युत उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण पॅनेल, उपकरणे, स्विचबोर्ड, उपकरणे, मशीन्स, घटक, उप अर्सेब्ली, हार्डवेअर, मशीन पार्ट्स, बनावट भाग, पाँवर केबल्स, प्लग, वायर्स, बोल्ट, ट्रान्सफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, पंखे, दिवे, स्विचेस, स्विचिंगवर्स, ड्रिलर, मोटर्स, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, डायोइस, ट्रान्झिस्टर, स्पेअर्स, पार्ट्स, संबंधित वस्तूंसह परंतु त्यापुरते मर्यादित नसलेल्या सर्व प्रकारच्य इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये व्यापार, आयात, निर्यात, वितरण, पॅकेजिंग, ब्रॅंडिंग, खरेदी,
- ब) भारत सरकार, राज्य सरकारे, परदेशी सरकारे, महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणे. कॉर्पोरेट संस्था, इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीच्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनीला योग्य वाटेल भशा इतर प्राधिकरणांसह कोणताही करार, करार, सामंजस्य करार, भागीदारी. संयुक्त उपक्रम, व्यवस्था किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे करार करणे
- क) आनुषंगिक क्रियाकलापांच्या संबंधात; उपलब्ध गुंतवणूकयोग्य अतिरिक्त बाबींचे व्यवस्थापन यासह, वरील गोष्टींशी संबंधित, संबंधित, सहाय्यक किंवा आनुषंगिक सर्व किंवा इतर कोणत्याही क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होणे.
- प्रस्तावित कंपनीच्या मसुद्याचे ज्ञापन व संस्थापन समयलेखाची प्रत कार्यालय पता : ४०२, काकड पॅले सीएचएस लि., ३१ टर्नर रोड, मोती महलजवळ, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई - ४०००५०, महाराष्ट्र, भारत (एसपी पॉवर सर्व्हिसेस एलएलपी यांचे नोंदणीकृत कार्यालय) या ठिकाणी परीक्षण करता थेऊ शकेल.
- याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, सदर अर्जासंदर्भात कोणाही व्यक्तीची कोणतीही हरकत असल्यार त्यांची हरकत लिखित स्वरूपात रजिस्ट्रार, केंद्रीय नोंदणीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आयआयसीए), प्लॉट क्र. ६,७,८, सेक्टर ५, आयएमटी मानेसर, जिल्हा गुरगाव (हरयाणा) - १२२ ०५० येथे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या आत पाठवावी ज्याची एक प्रत प्रस्तावित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात (वरील मुद्दा क्र. ३ मध्ये नमूद) पाठवावी

ठिकाण : मुंबई

मे. एसपी पाँवर सर्व्हिसेस एलएलपी करिता

व त्यांच्या वतीने सही/-सही/-राहुल रूपेश धीरवानी सुशीला रामलाल पहुजा डीपीआयएन :१०८८०२४६ डीपीआयएन : १०८८०२४५

''फॉर्म क्र. युआरसी-२'

कायद्याचे प्रकरण २१ च्या भाग १ अंतर्गत नोंदणीकरणासंदर्भात सचना देणारी जाहिरात (कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ३७४ (बी) व कंपनी (नोंदणीकरणास अधिकृत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ (१) अंतर्गत)

- याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ३६६ चे उप अनुच्छेद (२) च्य अनुपालनांतर्गत **''एमपी ग्रीन मार्केट हुब एलएलपी''** एक मर्याटित दायित्व भागीदारी संस्था यांचे कंपनी कायदा २०९३ च्या प्रकरण २१ च्या भाग ९ अंतर्गत शेअर्सद्वारे मर्यादित कंपनी म्हणून नोंदणीकरण करण्यासाठी कंपन निबंधक, मुंबई (महाराष्ट्र) यांच्याकडे पंधरा दिवसांच्या पश्चात, परंतु तीस दिवसांच्या आत अर्ज करण्यां प्रस्तावित आहे.
- कंपनीची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:-
- ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसमवेत, व्यापार, आयात, निर्यात, वितरण, पॅकेजिंग, ब्रॅडिंग, खरेदी, विक्री आणि एजंट म्हणून काम करणे, तसेच सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंसंदर्भात व्यवहार करणे ज्यामध्ये विद्युत उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण पॅनेल, उपकरणे, स्विचबोर्ड, उपकरणे, मशीन, घटक, सब-असेंब्ली, हार्डवेअर, मशीन पार्ट्स, बनावट भाग, पॉवर केबल्स, प्लग, वायर, बोल्ट, ट्रान्सफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, पंखे, दिवे, स्विचेस, स्विचिगयर्स, ड्रिलर, मोटर्स, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, डायोड, ट्रान्झिस्टर, स्पेअर्स, भाग आदी संबंधित वस्तूंचा समावेश आहे परंतु त्यापुरते मर्यादित नाही
- ब) कंपनीच्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकार, राज्य सरकारे, परदेशी सरकारे, महानगरपालिका, स्थानिक प्राधिकरणे, कॉर्पोरेट संस्था, इतर कोणत्याही व्यक्ती वा अशा इतर प्राधिकरणांसोबत कोणताही करार, करार, सामंजस्य करार, भागीदारी, संयुक्त उपक्रम, व्यवस्था किंवा अशा इतर प्रक्रिया करणे.
- क) आनुषंगिक क्रियाकलापांच्या संबंधात; उपलब्ध गुंतवणूक योग्य अतिरिक्त बाबींचे व्यवस्थापन यासह, वरील गोष्टींशी संबंधित, संबंधित, सहाय्यक किंवा आनुषंगिक सर्व किंवा इतर कोणत्याही क्रियाकलापां ध्ये सहभागी होणे.
- प्रस्तावित कंपनीच्या मसुद्याचे ज्ञापन व संस्थापन समयलेखाची प्रत कार्यालय पत्ता : १००२, **जॉली फ्रेंड्**स सीएचएस लि., १५ वा रस्ता, सीटीएस क्र. एफ – ४५१, एफ – ४५२, एफपी –४०८, ४०९, टीपीएस ३, वाँर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५०, महाराष्ट्र, भारत (एसपी ग्रीन मार्केट हब एलएलपी यांचे नोंदणीकृत कार्यालय या ठिकाणी परीक्षण करता येऊ शकेल
- याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, सदर अर्जासंदर्भात कोणाही व्यक्तीची कोणतीही हरकत असल्यास त्यांची हरकत लिखित स्वरूपात रजिस्ट्रार, केंद्रीय नोंदणीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ कॉपोरेट अफेवर्स (आवआवसीए), प्लॉट क्रं. ६,७,८, सेक्टर ५, आवएमटी मानेसर, जिल्हा गुरगाव (हरवाणा) – १२२ ०५० येथे सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या आत पाठवावी ज्याची एक प्रत प्रस्तावित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात (वरील मुद्दा क्र. ३ मध्ये नमूद) पाठवावी.

दिनांक: १९.०८.२०२५ ठिकाण : मुंबई

मे.एसपी ग्रीन मार्केट हब एलएलपी करिता

व त्यांच्या वतीने

लक्ष्य रूपेश धीरवानी डीपीआयएन :१०८७८४६९ डीपीआयएन : १०८२९९५६

सरस्वती मोहनलाल पहजा

डि. एन नगर, शीतलदेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित. इंडियन ऑइल नगर समोर , अंधेरी (पश्चिम) मुंबई -४000५३

ा संस्थेचे सभासद असलेल्या या संस्थेच्या इमारतीत सदनिका धारण करणाऱ्या खालील सभासदांचे निधन झाले मयत सभासदाचे नाव मृत्युची तारीख रूम नं वारसाशी वारसाचे नांव 0६ .0४ .२0२५ st .७०८ मुलगे श्री. मुन्नाकुमार दिपचंद कनोजिया श्री. श्रीराम दिपचंद श्री. महेशराम दिपचंद कनोजिया

यांनी संस्थेकडे वारस नोंदणीबाबत अर्ज दाखल केला असून संस्था या जाहिरातीद्वारे संस्थेच्या भांडवलं / मालमत्तेत असलेले मयत सभासदाचे भाग व हितसंबंध हस्तातरीत करण्यासंबधी मयत सभासदांचे वारसदार किंवा अन्य मागणीदार /हरकदार यांच्या कड्न मागणी /हरकत मागविण्यात येत आहे. ही नोटीस प्रसिद्ध कागढपत्रच्या प्रती व अन्य परावे सादर करावेत. जर वर नमढ केलेल्या मढतीत कोणाही व्यक्ती कडन हक्र गागण्या किंवा हरकती सादर झाल्या नाही, तर मयत सभासदांचे संस्थेच्या भांडवलतील /मालमत्तेतील भाग व हितसवंध यांच्या हस्तातरणाबाबत संस्थेच्या उपनिधीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. नोंदी व उपनिधीची एक प्रत मागणीदारस /हरकतदारास पाहण्यासाठी संस्थेच्या कार्यालयात सचिव यांच्याकडे सकाळी. ११ ते १ पर्यंत नोटीस दिलेच्या तारखेपासून नोटीसची मुद्दत सपण्याच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध राहील.

ठिकाण: अंधेरी (पश्चिम) मुंबई-५३ 🛮 डि. एन नगर, शीतलदेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित यांच्या करिता आणि वतीने - (सचिव) दिनांक: १९ . ०८ . २०२५

नमुना झेड नियम १०७ पो-नियम (११ (ड-१) पहा. स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्याबाबतची नोटीस

ज्याअर्थी, खाली सही केलेला वसुली अधिकारी, श्री. एस. एन. माईंगडे, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये नियुक्ती) द्वारा दत्तसेवा सहकारी पतपेढी मर्या, मुंबई १/१३६, बी.एम.सी. कॉलनी, अग्निशमन केंद्रासमोर, मावे रोड, मालवणी, मालाड (प), मुंबई- ४०० ०९५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ अन्वये असुन दिनांक : १७/०८/२०१६ रोजी मागणीची नोटीस ऋणको **श्री. सादिक सुलतानअली रतनशी** यांना देऊन नोटीशीमध्ये नमुद केलेली रक्कम रु. ४**३६७९५६/- (त्रेचाळीस लाख सदसष्ठ हजार नऊशे छपन्न रुपये मात्र)** सदर नोटीस मिळाल्याच्या दिनांका पासन आणि ऋणको याने रक्कम जमा करण्यास कसुर केली आहे. खाली सही करणाऱ्याने दिनांक २८/०६/२०१७ रोजी जप्तीची अंतिम नोटोंस दिली असुन, पुढे निर्दिष्ट केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसर केल्यामळे ऋणकोला याप्रमाणे नोटीस देण्यात येत आहे. आणि सर्व नागरिकांना खाली निर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेचा खाली सही करणाऱ्याने त्याला/तिला महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०७(११(ड-१) अन्वये दिलेल्य अधिकारानुसार दिनांक ३०/०७/२०२५ या दिवशी सिंबॉलिक ताबा घेतला आहे

विशेष करून ऋणकोला आणि सर्व नागरिकांना याद्वारे सावध करण्यात येत आहे कि. सदर मालमत्तेसंबधी कोणताही व्यवहार करु नये आणि व्यवहार केल्यास **श्री. सादिक सलतानअली** रतन्छी (सराह दंटरपार्दद्येस) रूप नं १२०१ आणि १२०२ संकल्पसिध्ही टॉवर प्र-विग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. इ एस पठाणवाला, भायखळा, मुंबई- ४०००२७ यांच्या बोजाची रक्कम रु. **९७८१४८५**/- आणि त्यावरील व्याज याला अधिन राहावे लागेल.

स्थावर मालमत्तेचे वर्णनः-

मौजे : (सराह इंटरप्राईझेस), रुम नं १२०१ आणि १२०२ संकल्पसिध्दी टॉवर ए-विंग को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि. इ. एस. पठाणवाला रोड, भायखळा, मुंबई- ४०००२७ येथील मालमत्ता पर्व - मोकली जागा - पश्चिम - मोकली जागा - उत्तर - रूम - दक्षिण - मोकली जाग दिनांक:- १८/०८/२०२५

ठिकाण:- भायखळा, मुंबई- ४०० ०२७ शिक्का

सही/-श्री. एस. एन. माईंगडे वसली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये नियुक्ती)

PUBLIC NOTICE

TECH MAHINDRA LIMITED Registered Office: GATEWAY BUILDING, APOLLO BUNDER, MUMBAI - 400001 TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the under mentioned securities of the Company has ave been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

NAME OF THE HOLDER AND	FOLIO NO (S)	FACE VALUE	CERTIFICATE NUMBER(S)		DISTIN NUMB		NO OF SHARE(S)
JOINT HOLDERS, IF ANY			START	END	START	END	
PRAMILA JOSHI	0002270	5	1222	1222	626725	627194	470
JOINT WITH	0002270	5	4058	4058	480949879	480950348	470
ARVIND JOSHI							

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate(s).

Any person who has any claim in respect of the said share certificate[s] should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents MUFG Intime India Pvt. Ltd. Block No. 202, 2nd Floor, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road, Pune - 411001, Maharashtra within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Compar shall proceed to issue with the Duplicate Share Certificate[s]

Place: MUMBAI Name[s] of the holder[s]/Legal Claimar Date: 19.08.2025 ARVIND RATANKRISHNA JOSHI

प्रॉक्टर ॲण्ड गॅम्बल हायजिन ॲण्ड हेल्थ केअर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: पी ॲण्ड जी प्लाझा, कार्डिनल ग्रेशस मार्ग, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९९.

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे खाली नमुद केलेले प्रतिभुती प्रमाणपत्र हरवले/गहाळ झाले आहेत आणि सदर प्रतिभुतीधारक/अर्जदारांनी दुय्यम भागप्रमाणपत्र वितरणासाठी कंपनीकडे अर्ज केला आहे. जर कोणा व्यक्तीस सदर प्रतिभुतीबाबत दावा असल्यास त्यांनी त्यांचे दावा कंपनीच्या नोंदणीकृ

कार्यालयात आजच्या तारखेपासून **१५ दिवसांत** कळवावे, अन्यथा पुढील कोणतीही सूचना न देत उपरोक्त अर्जदारांनी दुय्यम प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया कंपनी सुरू करेल.

प्रतिभुती धारकाचे	प्रतिभुती	फोलिओ	दर्शनी	प्रतिभुती	प्रमाणपत्र	अनुक्रमांक				
नाव	प्रकार	क्र.	मुल्य	संख्या	क्र.	पासून – पर्यंत				
विद्या सागर सेठी	समभाग	एस००००४६८	₹.	800	६१७६	१७०९०८२-				
(मयत)			१०/-			१७०९४८१				
ठेकाण: मुंबई दावेदाराचे नावः										
देनांक: ०३.०८.२०२५ अर्चना लाल										

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that we, 1. Mr. KUSHAL ASHAR and 2. Mrs. BINITA ASHAR, residing at, Flat No. 242, Ashar /illa, Opp. Tamil Sangam Hall, Sion (East) Mumbai- 400 022, have severed off and broken all our relations of whatsoever nature with our son Mr. PRITHVI ASHAR and his wife Mrs. NIDHI SHAH and they shall not have any right/claim over any of our past, present, and future movable/immovable properties. Any person(s) dealing in any manner with them shall be doing so at his/her own risk, and we shall not be liable for any financial transactions including debts. loans, act, matter, and deed of Mr. PRITHVI ASHAR and his wife Mrs. NIDHI SHAH, as they are residing separately from us since 01/08/2025.

Mr. KUSHAL ASHAR / Mrs. BINITA ASHAR Place: Mumbai

LOSS OF THE SHARE CERTIFICATE Notice is hereby given that share certificat nos. 0000041804. 0000044854 for 1000 1000 equity shares respectively of Rs.10/ each bearing distinctive nos. 0054359931 0054360930 and 0135728001 0135729000 respectively of FDC LTD. Registered in the name of Amiya Mukherjee and Minati Mukherjee under folio no 1503 has been lost and has applied to the company to issue duplicate certificate. Any person who has/have any claim in respect of the Said share certificate should lodge such claim with the company at its registered office B-8, MIDC Industrial Area, Dist Aurangabad, Waluj Maharashtra- 431136. Within 15 days of the publication of this notice. After which no claim will be entertained and the company will Date: 19.08.2025 proceed to issue duplicate share certificate.

जाहीर नोटीस

सहायक निबंधक, परसेवा, मुंबई महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. मुंबई यांचे मुख्य कार्यालय पत्ता : ६/६०३, दुर्गा कृपा को-ऑप हौसिंग सोसायटी, हनुमान चौक, नवघर रोड, मुलूँड (पूर्व), मुंबई-४०००८१.

अ. क्र.	जाब देणाऱ्याचे नाव	अर्ज दाखल दिनांक	दावा क्रमांक	दावा रक्कम रुपये	जाब देणार क्र.
	शाखा : भाईं	र अनुक्रमांक १	? ते २८		
१	श्री अमिरुद्दीन कमरुद्दीन शेख	१२/०६/२०२५	२५०६	१८९५०७	१
2	श्री मोहम्मद फैजान शेख	१२/०६/२०२५	२५०६	१८९५०७	2
æ	श्री अजहरुद्दीन कमरुद्दीन शेख	१२/०६/२०२५	२५०६	१८९५०७	w
γ	श्री मोहम्मद गौस अबुबकर शेख	१२/०६/२०२५	२५०६	१८९५०७	Х
ų	श्री हरिभाऊ रामू हिप्परकर	१२/०६/२०२५	२५०७	१४५७०३	१
ξ	श्री दिपक हरिभाऊ हिप्परकर	१२/०६/२०२५	२५०७	१४५७०३	2
b	श्री लक्ष्मण महादेव गोडसे	१२/०६/२०२५	२५०७	१४५७०३	ş
۷	श्री ज्ञानेश्वर महादेव सरगर	१२/०६/२०२५	२५०७	१४५७०३	٧
٩	श्री संदीप संभाजी गायकवाड	१२/०६/२०२५	२५०८	१६४७९५	१
१०	श्री नितीन सखाराम कदम	१२/०६/२०२५	२५०८	१६४७९५	2
११	श्री सनी रामदास जाधव	१२/०६/२०२५	२५०८	१६४७९५	ş
१२	श्री संजीव संभाजी गायकवाड	१२/०६/२०२५	२५०८	१६४७९५	Х
१३	श्री ताजमोहम्मद सफीमोहम्मद मनिहार	१२/०६/२०२५	२५०९	१६५२५७०	१
१४	श्री यारमोहम्मद सफीमोहम्मद मनिहार	१२/०६/२०२५	२५०९	१६५२५७०	2
१५	श्रीमती महरून्नीसा सफीमोहम्मद् मनिहार	१२/०६/२०२५	२५०९	१६५२५७०	э
१६	श्री मोहम्मद रमजान मुमताज अहमद मन्सुरी	१२/०६/२०२५	२५०९	१६५२५७०	Х
१७	श्री सुभाष सुदामा सिंह	१२/०६/२०२५	२५०९	१६५२५७०	ч
१८	श्री अमोल बाळू भोगळे	१२/०६/२०२५	२५१०	९३३८०९	१
१९	श्री बाळू गणपती भोगळे	१२/०६/२०२५	२५१०	९३३८०९	2
२०	श्री रविंद्र बाळू भोगळे	१२/०६/२०२५	२५१०	९३३८०९	ş
२१	श्री सागर गजानन नागवेकर	१२/०६/२०२५	२५१०	९३३८०९	8
२२	श्री युवराज हिंदुराव आंबवडे	१२/०६/२०२५	२५१०	९३३८०९	ч
२३	श्री मोहन दिवाणजी शिवले	१२/०६/२०२५	२५११	५७५११०	१
२४	श्री रमेश दिवाणजी शिवले	१२/०६/२०२५	२५११	५७५११०	2
२५	श्री विजयकुमार बाळकृष्ण थिटे	१२/०६/२०२५	२५११	५७५११०	э
२६	श्री शशिकांत बाळकृष्ण थिटे	१२/०६/२०२५	२५११	५७५११०	Х
२७	श्री शंकर भिमा पवार	१२/०६/२०२५	२५११	५७५११०	ч
२८	श्री दालचंद राजमल जैन	१२/०६/२०२५	२५११	५७५११०	ξ
	शाखा : बोईस	।र अनुक्रमांकः	? ते ११		
१	श्री विनायक निळकंठ साकुसकर	१२/०६/२०२५	२५७९	२५९०७२	१
2	श्री उमेश बबन पाटील	१२/०६/२०२५	२५७९	२५९०७२	2

Avishkar Bhimarao Patil

Megha Nivas Kalake

Sarika Sardar Shinde

Savita Sagar Kalake Shankar Bandu Chougule Shivaji Balu Kadam Sunil Pandurang Kadam Uttam Krishnat Veer Vishvas Ganapati Gavade

97 Abhishek Sanjay Khaladkar

Aditya Rajendra Shelke Akshay Madhukar Shendage Ashwini Vithhal Shelke

Bapu Popat Kedari Popat Kedari Bhoandve Amol Dattatray Gulab Ramdas Hake

3 Gulab Ramdas Hake
4 Hiraman Appa Choramle
5 Hitej Shahaji Rupanavar
6 Indira Satish Pawar
7 Ivare Nikhil Bhausaheb
3 Julekha Himmat Shaikh
7 Kailas Soma Kolpe
1 Laxman Balu Kolpe
1 Mahendra Popat Raut
2 Prasad Ashok Shendage
1 Priya Somnath Rupanwar
1 Rahul Arvind Dombale
1 Rahul Arvind Dombale
1 Ravindra Balaso Dorage

Ravindra Balaso Dorage

9 Ravindra Balaso Dorage
7 Revannath Ishwar Pawar
8 Samadhan Machhindra Thorat
19 Sandip Ramchandra Shelke
20 Saurabh Gorakh Punekar
21 Shinde Dipak Prakash
22 Shivaji Mahadev Khatal
23 Shrikart Chandrakant Thorat
24 Shubham Shymrao Yevle
25 Sopan Bhikaji Walhekar
26 Subhash Baburao Barve
27 Tanaji Dattatray Kshirsagar
28 Tulshidas Devram Khedekar
129 Vikas Kushaba Keskar
30 Vishal Dattatray Chandgude

Akash Jalindar Bhalerao Akil Innus Shaikh Aniket Bhagwan Waman Ganesh Jijabhau Jadhav Gaun Pravin Shelar Pankai Uttam Borhade Sandesh Uttam Khilari Sinkadar Fakirbai Maniyar Subhash Genbhau Dighe

40 Sudesh Ashok Salunkh

141 Anju Ajit Homkar 142 Pruthviraj Vasude 142 Pruthviraj Vasudev Mali 143 Rahul Uttam Mali 144 Sandip Dilip Kasar 145 Sumit Sachin Bele

147 Yogesh Keshav Khot

48 Appasaheb Shahurav Andhare Dattatray Machindra Gaikwad Gangaram Popat Nanvare

Jayram Shrimant Narute

52 Jejeram Sadashiv Handal 53 Lalababa Jainodin Mulani 54 Manoj Shrimant Palve 55 Radhika Pravin Lohar

56 Ashwini Gopal Marathe 57 Bhikubai Dilip Hire 58 Bhushan Sunil Ahirrao 59 Chandrakant Jayram Ha 60 Hemant Gokul Patil

Bhagvan Krishnat Kamble Deepak Bajirao Patil Manik Vasantrao Patil

Priyanka Sagar Ingawale Rajendra Namdev Karnik Sagar Jotiram Patil Sambhaji Dattatray Kamble

KEDGAON

4740375 4884499

8226016 8219239 5017368

ALEPHATA

ALUS

KAVITGAON- KANDAR

MOHADI

001 001

2,04,042.50 1,14,972.50

1,17,033.00 4,47,092.00 97,608.00 57,571.00

2,29, 53, 1,49, 77.

30,382.00

33.16 18.15

18.83 237.65 15.70 9.26

अ. क्र.	जाब देणाऱ्याचे नाव	अर्ज दाखल दिनांक	दावा क्रमांक	दावा रक्कम रुपये	जाब देणा क्र.
ş	श्री नितीन भटु ठाकरे	१२/०६/२०२५	२५७९	२५९०७२	ş
γ	श्री प्रितेश केशव मोरे	१२/०६/२०२५	२५७९	२५९०७२	Х
ų	श्री जयहिंद दुधनाथ प्रजापती	१२/०६/२०२५	२५८०	३१४४१७	१
ξ	श्री विजय अजयकुमार कनौजिया	१२/०६/२०२५	२५८०	३१४४१७	2
b	श्री सुशिल सुरेंद्र चौहान	१२/०६/२०२५	२५८०	३१४४१७	3
۷	श्री आशिष दुधनाथ प्रजापती	१२/०६/२०२५	२५८०	३१४४१७	Х
٩	श्री नितीन सिताराम कसबे	१२/०६/२०२५	२५८१	১८०७७	१
१०	श्री अनिरुद्ध सुभाष अहिर	१२/०६/२०२५	२५८१	८८०७७	2
११	श्री अजिंक्य संपत कांबळे	१२/०६/२०२५	२५८१	८८०७७	3
	शाखा : कांदिव	ली अनुक्रमांक	१ ते १०		
१	श्री किशोर लक्ष्मण वर्मा	१२/०६/२०२५	२५२५	११८५५८	१
2	श्री अशोक नारायण काळे	१२/०६/२०२५	२५२५	११८५५८	2
ş	श्री योगेश सोमनाथ थिटमे	१२/०६/२०२५	२५२५	११८५५८	3
γ	श्री रोहित सुरेश वाजे	१२/०६/२०२५	२५२६	७५५०६	2
ų	श्री शरद राजधर पाटील	१२/०६/२०२५	२५२६	७५५०६	3
ξ	श्री मंगेश आत्माराम भोंदे	१२/०६/२०२५	२५२६	७५५०६	8
b	श्री यशा भरत मेहता	१२/०६/२०२५	२५२७	२१०१८५	१
۷	श्री भरत रमणिकलाल मेहता	१२/०६/२०२५	२५२७	२१०१८५	2
٩	श्री अमित गौतमचंद जैन	१२/०६/२०२५	२५२७	२१०१८५	ş
१०	श्री अतुल दत्ताराम नर	१२/०६/२०२५	२५२७	२१०१८५	Х
	शाखा : गोरेगाव, सं	तोषनगर अनु	क्रमांक १ ते ५		
१	श्रीमती वेमबाई स्वामीगन	१२/०६/२०२५	२५०५	३७८०५४	१
2	सौ. जया काशीराजन	१२/०६/२०२५	२५०५	३७८०५४	2
ş	श्री वडीवेल पेरुमल	१२/०६/२०२५	२५०५	३७८०५४	ş
γ	श्री प्रशांत उत्तम जाधव	१२/०६/२०२५	२५०५	३७८०५४	Х
4	श्री काशिराजन अंगमुतु	१२/०६/२०२५	२५०५	३७८०५४	4
	शाखा : सांताः		इश्ते ३		
१	श्री राकेश शिवराम मोहिते	१२/०६/२०२५	२५१८	२८४३३६	2
?	श्री सखाराम शांताराम तांबे	१२/०६/२०२५	२५१८	२८४३३६	3
3	श्री अनिल शंकर पवार	१२/०६/२०२५	२५१८	२८४३३६	8

जातीने दिनांक २२/०८/२०२५ रोजी सकाळी १२:०० या वेळेत दाव्यासंबंधी कागदपत्रांसह आपण

या नोटीशीद्वारे उपरोक्त प्रतिवादी यांना असेही कळविण्यात येते की, वरील तारखेस आपण वेळेवर हजर न राहिल्यास आपल्या गैरहजेरीत अर्जाची सुनावणी घेण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. त्या प्रमाणे वरील तारखेस तत्पुर्वी आपला संपूर्ण पत्ता कळविण्यात कसूर केल्यास आपला बचाव रह समजण्यात येईल.

म्हणून आज दिनांक ०८/०८/२०२५ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिली आहे.



182 Dattaram Anant Usare 183 Dipali Dilip Salvi 184 Durgesh Pradip Shinde 185 Farjana Siraj Maniyar 186 Fatima Ahmed Desai

187 Jay Keshavram Pasvan 188 Jaywant Damodar Niwalkar 189 Kailas Kashinath Dalwatkar 190 Madhukar Narayan Khapre 191 Nasreen Sikandar Bebal 192 Nitesh Rayindra Ghanekar

Rajendia Shiyaji Radal Rubina Iqbal Chougule Sagar Vijay Pawar Sanjay Sonu Nakshe Santosh Suresh Kadu

Shahina Dawood Mukadam Shamim Sultan Dhenkar

Surai Subhash Pridanka Sushant Rangrao Ghatge

Vishal Vinavak Sakharkar 211 Yogesh Guruling Palapure

2 Akash Dnyanoba Mazire

2 Akası Driyarioba Mazire 3 Alim Salyad 4 Archana Arjun Shinde 5 Kanchan Ramdas Ranjane 6 Manisha Kumari 7 Rutuja Kailas Zunjare 8 Sadashiy Canabhay Shalar

218 Sadashiv Genabhav Shelar 219 Shriram Maruti Dhumal 220 Shubham Ramdas Amrale 221 Vivekanand Karbhari

2 Chetan Chavan 3 Dhanraj Patil 4 Dipak Laxman Gawali 5 Iqbal Usman Shaikh 6 Kuber Madhukar Mahajan 7 Nilesh Asodekar

228 Prashant Dipak Gumane 229 Sandip Bhole 230 Sunil Ramesh Sakat

31 Dayanand Varman Patole 32 Rohit Bhgwan Dubale

9 Tulasi Bharat Usare

(बी. के. येल्हारे) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (परसेवा) महागष्ट्र गज्य विगर कथी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि.. मंबई.

24.0(24.3(25.05 132.80 8.00 29.70 28.40 10.40 93.10

24.50 49.70 49.90 6.00 35.50 18.00 23.00 25.10

29.60 9.60 17.90 70.20 35.00 22.90 27.20 20.60 34.00

31.00

85.00 30.40 52.95 22.40 93.00

5.80 9.50 20.90

19.94

61.00

11.40

8236839 4498160

5064084 7661232

PIRANGUT

ALGAON

ANER

DHARASHIV

- MAHALAKSHM

LKARANJI

4900476 4884300

KONDHWA

CHIPLUN

1.18,129.00

001 1,12,421.00

8232458 001 3,77,216.00

8229635 001 67,433.00

7885682

001 001 001

1,45,399.00 75,055.00 86,760.00

001 | 1,31,052.44

002 3,65,620.0 001 57,823.0 001 15,74,334.5 001 2,66,001.2 001 27,895.5 001 65,301.0 001 1,23,705.5 001 5,07,446.5

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF ADDI INDUSTRIES LIMITED

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer(s) Mr. Raiat Goval, Mrs. Neha Agarwal, M/s Raiat Goval HUF, Mr. Sandeep Mittal, Mrs. Ruchi Mittal and M/s Sandeep Mittal & Sons HUF pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 as amended

Registered Office: - A-104, Third floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi-110020.

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Detailed Public Statement ("DPS"), unless otherwise specified Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the DPS, unless otherwise defined.

The shareholders of Addi Industries Limited are requested to note that the developments/amendments with respect to and in connection with DPS are as under:

The revised schedule of activity pertaining to the Open Offer has been changed and shall be read as under.

Sr. No	Activity	Original Schedule (Days & Dates)	Revised Schedule (Days & Dates)
1.	Date of Public Announcement	Tuesday, May 20, 2025	Tuesday, May 20, 2025
2.	Date of Publication of Detailed Public Statement	Tuesday, May 27, 2025	Tuesday, May 27, 2025
3.	Filing of the Draft Letter of Offer to SEBI	Tuesday, June 03, 2025	Tuesday, June 03, 2025
4.	Last Date for a Competitive Offer(s)	Tuesday, June 17, 2025	Tuesday, June 17, 2025
5.	Identified Date*	Thursday, June 26, 2025	Monday, August 11, 2025
6.	Date by which Final Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Thursday, July 03, 2025	Wednesday, August 20, 2025
7.	Last Date for revising the Offer Price/ number of shares.	Monday, July 07, 2025	Friday, August 22, 2025
8.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations.	Tuesday, July 08, 2025	Monday, August 25, 2025
9.	Date of Publication of Offer Opening Public Announcement	Wednesday, July 09, 2025	Tuesday, August 26, 2025
10.	Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening date)	Thursday, July 10, 2025	Thursday, August 28, 2025
11.	Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing date)	Wednesday, July 23, 2025	Thursday, September 11, 2025
12.	Last Date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for applications accepted/ return of unaccepted share certificates/ credit of unaccepted Equity Shares to Demat Account.	Wednesday, August 06, 2025	Thursday, September 25, 2025

The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure of tendering period.

Para 6 of the Detailed Public Statement should be read as under: The Brief financials of the AIL are as under

				(Rs. In Lakhs)
Particulars	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Year ended March 31, 2023 (Audited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
Total Income/Net Income	229.35	405.12	742.64	553.90
Profit After Tax	3739.47	1704.05	466.62	324.81
Earnings Per Share (EPS) (in Rs)	34.64	15.78	4.32	3.00
Net worth	5703.78	7407.73	7738.20	7929.00

* Source: As Certified by statutory auditor of the Target Company, M/s B R Gupta & Co., Chartered Accountants (Firm Registration Number: 008352N), through its partner Ms. Shikha Aggarwal, (Membership Number: 509191), having its office at K-55 Connaught Circus New Delhi-110001 vide its Certificate dated 12th August, 2025, Phone Number: 011-43503680, Email id: brg@brgupta.com.

The above dates where ever it appeared in the Detailed Public Statement should be read accordingly.

The Acquirer(s) accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Detailed Public Statement and also the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 & subsequent amendments thereof. This Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.



D & A Financial Services (P) Limited 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065

Tel: 011-41326121/40167038 Email: investors@dnafinerv.com Contact Person: Ms. Radhika Pushkarna

PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF ଟ CSB Bank PLEDGED GOLD ORNAMENTS

The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Banks due by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank, the gold somaments pledged with the bank security by the respective borrowers for the 86 loan avalled by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal https://gold.samil.in on 26" August 2025 88 at 10.30 AM The auction may be adjourned to any other later date at the 89 discreation of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. 90 of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further 92 of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further 192 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further 192 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the same in the same that the 193 of the 193 of the same that the 193 of the

balar	or by private sale if the public auction is not successful and it there is a furth balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against th borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank. In case of diseased borrower, all conditions will be applicable to legal heirs					
S. No.	Account Name	Client ID	No.of Acc.	Bal.Outstan- ding as on 17/08/2025	Weight (grams)	
	KARAD					
123456780	Dhanaji Bhaskar Sutar Kalpana Popat Patii Kalyani Shivaji Bhosale Kuldeep Mahadev Nikam Mandar Pandurang Mule Naresh Kumar Sharma Rajan Gulabrao Khilare Ram Ashok Bhosale	4353799 8238317 8237030 5029950 4555944 7589571 4337624 4608442	001 001 001 001 001 001 001	1,25,109.00 1,37,025.00 55,437.13 27,310.00 32,128.00 70,078.94 46,835.94 91,713.00	23.30 24.37 11.00 6.00 5.60 13.00 8.30	

111111111111111111111111111111111111111	0 Sagar Anandrao Patil 1 Sarang Tanaji Godase 2 Satish Ramchandra Wagh 3 Sharada Uday Kumbhar 4 Shubham Shankar Chavan 5 Sujatha Subhash Vare 6 Sujit Bhikaji Patil 7 Swapnali Kiran Pavekar 8 Varsharani Sunil Vetal 9 Vinayak Sudhakar Nalawade Patil 0 Vishal Mahadev Girigosavi 1 Yogesh Sanjay Desai	7474422 5065992 4538428 4557778 4445820 4915143 4529007 4946510 7760936 4558760 4371603 4562814 5028756	001 002 001 001 001 001 001 001 001 001	4,76,535.00 1,71,73.00 35,802.00 63,651.47 38,310.50 1,68,609.00 38,735.95 2,60,613.76 4,97,242.00 2,92,494.00 76,015.00 91,973.00 99,016.75	84.80 31.60 9.40 11.00 14.80 28.70 8.70 48.50 80.00 47.64 19.50 17.00
12	2 Girish Ganesh Kathawate 3 Jyoti Ajay Lokhande 4 Sagar Jalinder Talekar 5 Sanjay Bhalchandra Deshmukh	5031551 8236826 7289606	001 001 001	68,319.00 1,29,346.00 3,00,979.00	11.18 21.51 48.56

dra Deshmukh | 8240050 | 001 | 1,19,692.00 | lajare | 4895080 | 002 | 1,58,938.00 | 25 | Sanjay Bhalchahdra De 26 | Santosh Bapu Hajare DHAVALGAON 001 001 001 001 001 Akshay Bajirao Sahare 001 003 001 001 001 001 001 001 002 001 003 iandu Ahile leepak Kisan Tagad agannath Sheshrao Giram (antabai Sahare (aran Agrawal frushna Laxman Rathod //ahadey Bhaskar Wagh 49,192.00 2,09,011.00 60,814.00 4,33,971.00 85,271.00 1,06,518.00 10,89,782.50

lalika Sayyad layur Mangalchand Chaudhai lonika Mukesh Raut ajesh Vitthal Rathod tyanarayan Ghansha

atyanarayan Gnanshamda: landhane hivam Tulashiram Bhawar iiddharth Khandu Dhawale uraiya Karim Atar Khan iwapnil Dadarao Hiwrale wapnil Shivkumar Agrawal iyed Azhar Syed Akhatar tthal Sarangdhar Dhawale ALEGAON Amol Sarierao Ingale

nubhada Sabhaji Dhan

Yogesh Patil

Abhiieet Uttam Patil

Abhijit Dayanand Desai Alaka Dashrath Kamble

Amit Sakharam Kadam

nandi Sadashiv Patil

Ashvini Anil Kadam

 5016803
 001
 32,050.00

 8239723
 001
 1,73,328.00

 7968717
 001
 6,26,549.00

 4846058
 002
 2,66,637.00

 4698412
 001
 29,875.00

 7973441
 001
 4,80,626.00
 handi Narayana ayanand Kóndu Gaikwad alpana Satywan Pisal Pravin Balu Jadhav MBEGAON 001 001 001 001 001 nant Sundarrao Jogdand 2,22,164.00 1,53,977.00 88,808.00 38,176.00 arida Pathan derjeetkaur Harjindersingh kandhawa kamda Nivrutti More kawanya Umesh Bojja filind Shivaji Nigade ilta Shrihari Jannu kagar Dattatraya Daswadkar shamukharao Durgasi sheetal Santosh Pawar bubba da Sobba ii Dhamdha bubba da Sobba ii Dhamdha sheeta Shahaii Dhamdha

99.00 35.82 24.83 14.23 6.50 5.00 12.52 364.44 58.30 147.25 001 002 001 001 001 001 003 001 3,53,760.00 8,46,741.50 72,319.00 1,00,805.00 NAWADI 7619977 4423793 8223757 7390458 001 001 001 002 001 001

63,275.00 1,91,567.00

Hemant Gokul Patil Kunjalbai Gajendra Badgujar Manisha Purushottam Desale Milind Sunit Tribinwane Pawan Dilip Suryawanshi Prafulla Arun Borse Pranam Dattatraya Vayse Rohidas Himmat Koli Rushikesh Arun Borse Sagar Prakash Patil Sandip Purushottam Patil Sarita Parag Chopda Shubham Rajendra Yadav Sonali Swapnil Wani I74 Sunanda Dhondu Patil Abir Rameez Khot 34.75 12.06 7.10 176 Afroza Sagir Ghansar 177 Amit Ankush Wadekar 178 Anis Hasanmiya Jasnail 179 Aparna Kalpesh Jogale 180 Arpita Samir Bhuvad

181 Arvi Vinavak Bondka

69,176.00

233 Someshwar Dnyaneshwar Gonge 234 Bapurao Balu Jadhav ANANDNAGAR - PUNE 235 Akshay Ramesh Yawale 236 Akshay Sunil Bhilare 237 Nayan Shankar Pawar Pramod Bhaskarrao Kulkarni Prashant Raosaheb Tile Sahil litendra Bair 8.50 20.40 10.00 5.40 27.00 242 Shital Bharatrao Sarnaik 243 Ashwin Ajay Sarwade 244 Dattatray Sukhdev Mali 245 Dhiraj Navnath Jamale 246 Kharat Popat Gyandev 247 Shahaji Nana Rathod 5.10

248 Anand Shiyaii Pati

KOLHAPUF 249 Asiya Tofik Maner 250 Juber Balaso Mullani 251 Ravindra Balwant Patil 252 Somnath Dattatray Pawale 254 Akshay Vilas Dhumal

256 Sujal Rajendra Mane KESHAV NAGAR 257 Dhananjay Sanjay Sonune INDIRANAGAR - NASIK 258 Ritesh Rajesh Giri 259 Kishor Pandurang Muke

263 Sameer Dipak Bamane 264 Sana Faiyaj Koltharkar 265 Shantaram Laxman Humane 266 Shivaji Gangaram Gaikwad

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please

visit/login to the e-auction portal https://gold.samil.in 19.86 MAHARASHTRA | Date: 19.08.2025 Sd/- Authorized Officer, CSB Bank